

[This question paper contains 2 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 7024

J

Unique Paper Code : 2272202401

Name of the Paper : Intermediate Macroeconomics I: Foundations of Aggregate Income Determination

Name of the Course : **BA (Prog.) in Economics**

Students : **SOL**

Semester : **IV**

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Answer any **Five** Questions.
3. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
2. किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
3. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

1. Derive the aggregate supply curve of the economy by highlighting the wage-employment relationship. (18)
2. How do the traditional Phillips curve differ from Modern Phillips curve? Explain. (18)
3. Using aggregate demand and aggregate supply to show the impact of adverse supply shock. How can such a situation be tackled? (10,8)
4. What are the characteristics of a competitive labour market? How can labour market achieve the equilibrium wage rate and unemployment rate? (8,10)

P.T.O.

5. What are the determinants of residential investment and inventory investment? (9,9)
 6. "Consumers make consumption choices over a period of time"- Explain by using Fisher's model of intertemporal choice. (18)
 7. Write short notes on **any two** of the following : (9,9)
 - (i) Permanent income hypothesis
 - (ii) Business fixed investment
 - (iii) Natural rate of unemployment
-
1. मजदूरी-रोजगार संबंध पर प्रकाश डालते हुए अर्थव्यवस्था का कुल आपूर्ति वक्र प्राप्त कीजिए। (18)
 2. पारंपरिक फिलिप्स वक्र आधुनिक फिलिप्स वक्र से किस प्रकार भिन्न है? व्याख्या कीजिए। (18)
 3. प्रतिकूल आपूर्ति आघात के प्रभाव को दर्शाने के लिए कुल मांग और कुल आपूर्ति का उपयोग करना। ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है? (10,8)
 4. प्रतिस्पर्धी श्रम बाजार की विशेषताएँ क्या हैं? श्रम बाजार किस प्रकार मजदूरी दर और बेरोजगारी दर में संतुलन प्राप्त कर सकता है? (8,10)
 5. आवासीय निवेश और इन्वेन्ट्री निवेश के निर्धारक क्या हैं? (9,9)
 6. "उपभोक्ता समय की अवधि में उपभोग विकल्प बनाते हैं" - फिशर के अंतर-कालिक विकल्प मॉडल का उपयोग करके व्याख्या कीजिए। (18)
 7. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (9,9)
 - (i) स्थायी आय परिकल्पना
 - (ii) व्यवसाय निश्चित निवेश
 - (iii) बेरोजगारी की प्राकृतिक दर